

Weekly Homework

(Week 03rd May to 9th May 2021)

Class IX

S. N .	Subject & Teacher	Homework	Subjects Integrated	Objective
1	English (Ms.Nayer A. Khan)			
2	Hindi (Ms.Anuradha Shrivastava)	<p>पाठ- धूल</p> <ul style="list-style-type: none"> • गांव के सचित्र वर्णन । • गोधुलि बेला को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना । • मिट्टी के प्रकारों तथा उनकी उपयोगिता को सचित्र लिखना। • अखाड़े की मिट्टी का वर्णन। अखाड़े का चित्र दिखाना। • हमारे देश में उगाई जाने वाली फसलों का वर्णन । • मणिपुर तथा नागालैंड के गांवों में मनाए जाने वाले त्यौहार , नृत्य , गीत तथा फसलों का विस्तार से वर्णन। <p>(गृहकार्य चित्रों की सहायता से पूरा कीजिए।)</p>	हिंदी आर्ट इतिहास कृषि विज्ञान	बच्चों को भारतीय संस्कृति तथा अपने देश की मिट्टी से परिचित कराना।
3	Maths (Mr. Syed Saeed Ahmed)	<p>Weekly Assigned Homework Ch-6 Lines and Angles</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Note down all the definitions. 2. Prepare a mind map in which show the relation of angles for intersecting lines and parallel lines. 	Maths Art	To make students familiar with the various concepts of lines and angles.

		<p>3. Prepare the notes of questions demonstrated in video lectures.</p>		
4	Chemistry (Mr. Anil Tiwari)	<p>Weekly Assigned Homework -Bridge Course Unit-1 Matter in Our Surroundings</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Define matter and differentiate solid liquid and gas on the basis of their physical properties. 2. Why gases fills the container completely? 3. Write formula for converting degreeCelcius scale of temperature into Kelvin scale of temperature. 4. Why Kelvin scale of temperature is considered as a unit of Temperature.? 5. What is the difference between weight and mass? 6. By performing an activity verify the law of conservation of mass which we studied in your 10th class. 7. Calculate the molar mass of water,carbon dioxide and glucose. 8. Write down main points of Dalton's atomic theory. 9. What is the difference between evaporation and boiling? 10. Why the temperature doesn't increase when ice melts? 	English Chemistry Physics Maths Art	To make students familiar with the various concepts required for understanding in X Class Level & Importance of different subjects.

		<p>m/s². How much time will it take for the body to stop?</p> <p>Q-6. A train starting from the rest moves with a uniform acceleration</p>		
6	Biology (Ms. Uzma Abbasi)	<p>HW: I. Prepare a model to compare plant cell and animal cell using common household items like grains and pulses etc.</p> <p>II. Solve the following questions:</p> <p>1. Give the differences between plant cell and animal cell in tabular form.</p> <p>2. Draw a well labelled diagram of prokaryotic cell. Give difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell in tabular form.</p> <p>3. What is plasmolysis? Explain</p> <p>4 . What do you understand by the term Hypertonic and hypotonic solution?</p> <p>5. Why does animal cell burst it is kept in hypotonic solution for long duration?</p> <p>6. Why does raisins do not get burst upon keeping in hypotonic solution for longer duration?</p>	Biology and Arts	Students become familiar with the basic concept of cell Creative and logical thinking
7	Social science (Mr. pankaj Gurmala ni)	-----		
8	Computer (Mr. Ankur Sharma)	No Class Conducted this Week		

Last Date of Homework Submission: 08 / 05 /2021